



# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone ①: 2661263,2737446 Fax: 2737446  
Website:www.bsgmp.net E\_mail:scoutguide\_bpl@dataone.in

## अंलकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र दो प्रतियों में भेजा जावे -

01. नाम .....
02. जन्म दिनांक .....
03. संचालित दल का नाम .....
04. मूल पद .....
05. स्काउटर/गाइडर पद .....
06. नियुक्ति पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... नवीनीकरण ..... तक  
(छायाप्रति संलग्न करें)
07. चार्टर क्रमांक/दिनांक .....
08. स्काउटर/गाइडर के रूप में लिए गये प्रशिक्षण का विवरण .....

| क्र. | शिविर का नाम | स्थान | दिनांक से दिनांक तक | प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक अंकित करे। |
|------|--------------|-------|---------------------|---|
| 01   |              |       |                     |   |
| 02   |              |       |                     |   |
| 03   |              |       |                     |   |
| 04   |              |       |                     |   |
| 05   |              |       |                     |   |
| 06   |              |       |                     |   |

09. स्काउटर/गाइडर के रूप में कार्यावधि .....

09. संस्था के प्रति की गई सेवाओं का विवरण .....

| क्र. | विशेष सेवाकार्य | दिनांक से | दिनांक तक | कार्य में दायित्व |
|------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 01   |                 |           |           |                   |
| 02   |                 |           |           |                   |
| 03   |                 |           |           |                   |
| 04   |                 |           |           |                   |
| 05   |                 |           |           |                   |
| 06   |                 |           |           |                   |
| 07   |                 |           |           |                   |
| 08   |                 |           |           |                   |

10. राज्य/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिभागिता

| क्र. | कार्यक्रम का नाम | स्थान | दिनांक से<br>दिनांक तक | प्रतिभागिता का प्रकार |
|------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 01   |                  |       |                        |                       |
| 02   |                  |       |                        |                       |
| 03   |                  |       |                        |                       |
| 04   |                  |       |                        |                       |
| 05   |                  |       |                        |                       |
| 06   |                  |       |                        |                       |
| 07   |                  |       |                        |                       |
| 08   |                  |       |                        |                       |

11. दल में कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर की गुणात्मक वृद्धि में योगदान

| क्रमांक | सत्र | तृतीय चरण<br>स्वर्ण पंख | चतुर्थ चरण<br>हीरख पंख | तृतीय<br>सोपान | राज्य<br>पुरस्कार | राष्ट्रपति<br>अवार्ड<br>रोवर/रेंजर | राष्ट्रपति<br>अवार्ड<br>रोवर/रेंजर |
|---------|------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 01      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 02      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 03      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 04      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 05      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 06      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 07      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 08      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 09      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |
| 10      |      |                         |                        |                |                   |                                    |                                    |

11. पूर्व में भारत स्काउट/गाइड से प्राप्त अंलकरण पुरस्कार का तिथिवार विवरण

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

उपरोक्त विवरण की जांच करने के पश्चात् ..... जिला कार्यकारिणी की बैठक में श्री/श्रीमती ..... को ..... प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी/सहाकय आयुक्त (आ.वि.)  
पदेन जिला कमिश्नर (स्का./गा.)

जिला सचिव  
दिनांक .....

राज्य मुख्यालय में प्राप्त आवेदन दिनांक ..... करे अयोजित  
अंलकरण समिति की अनुशंसा सहित राज्य कार्यकारिणी की ओर ..... के लिए प्रेषित।

स्टेट कमिश्नर (स्का./गा.)  
दिनांक .....

राज्य संगठनायुक्त (स्का./गा.)  
दिनांक .....

राज्य कार्यकारिणी द्वारा अनुशासित अंलकरण .....

स्टेट चीफ कमिश्नर  
दिनांक .....

राज्य सचिव  
दिनांक .....